

भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ मंडपम क्षेत्रीय केंद्र में एन एफ डी बी मुख्य कार्यपालक का दौरा

डॉ. सी. सुवर्णा, आइ एफ एस, मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी), हैदराबाद ने भा कृ अनु प-केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी एम एफ आर आइ) मंडपम क्षेत्रीय केंद्र में दिनांक 5 फरवरी, 2021 को दौरा किया और एन एफ डी बी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का पुनरीक्षण किया। उन्होंने समुद्री पिंजरा मछली पालनकारों, समुद्री शैवाल पालनकारों और समुद्री अलंकारी मछली बीजों का पालन करनेवाले तमिल नाडु के रामनाथपुरम एवं टूटिकोरिन जिले के स्वयं सहायक ग्रुपों के साथ विचार-विमर्श किया।

उन्होंने भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ मंडपम क्षेत्रीय केंद्र के समुद्री पखमछली स्फुटनशाला, समुद्री अलंकारी मछली बीज उत्पादन यूनिट, समुद्री रीफ जलजीवशाला, एन एफ डी बी द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय समुद्री मछली ब्रूडबैंक और आर ए एस सुविधाओं को देख लिया। एन एफ डी बी और केंद्र के सहयोग से किये जा रहे पालन गतिविधियों का निरीक्षण किया और समुद्री पिंजरा मछली पालन साइटों का दौरा किया। उन्होंने समुद्री पिंजरा मछली पालन प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन एच डी पी ई पिंजरों की निर्माण प्रक्रिया भी देख लिया। डॉ. सुवर्णा ने मन्नार खाड़ी

में हरित पुली चिंगट (पेनिअस सेमीसल्केटस) बीजों के समुद्र रैचन में भाग लिया।

इसके साथ, केंद्र के सम्मेलन कक्ष में मछली पालनकारों के साथ आयोजित विचार-विमर्श बैठक में भाग लिया। डॉ. आर. जयकुमार, प्रधान वैज्ञानिक ने सभा का स्वागत किया और मछुआरों के लिए अतिरिक्त आजीविका विकल्प के रूप में समुद्री संवर्धन को बढ़ावा देने में एन एफ डी बी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया। एन एफ डी बी के कार्यपालक ने समुद्री पिंजरा मछली पालनकारों, समुद्री शैवाल कृषकों और समुद्री अलंकारी मछली का पालन करने वाले एस एच जी के साथ विचार-विमर्श किया और केंद्र द्वारा उठाये जा रहे प्रयासों की सराहना की। डॉ. ए. के. अब्दुल नाज़र, प्रधान वैज्ञानिक, भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ मद्रास क्षेत्रीय स्टेशन ने धन्यवाद अदा किया। बाद में, डॉ. सुवर्णा ने पाक खाड़ी के मुनैक्काडु गाँव का दौरा किया और समुद्री शैवाल पालन, समुद्री पिंजरा मछली पालन और एकीकृत बहु पौष्टिक जलजीव पालन (आइ एम टी ए) गतिविधियों का निरीक्षण किया और इन गतिविधियों में शामिल प्रगतिशील मछुआरिनों के साथ विचार-विमर्श किया।



मंडपम क्षेत्रीय केंद्र में मुख्य कार्यपालक, एन एफ डी बी की बैठक



मुख्य कार्यपालक, एन एफ डी बी द्वारा ब्रूड बैंक सुविधा का अवलोकन